

To
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Mumbai – 400 001

To
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Bandra, (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 540403, Scrip Symbol: CLEDUCATE
ISIN: INE201M01011

Dear Madam/Sir(s),

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the provision of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today i.e., September 11, 2021, in Financial Express (English) and Dainik Bhaskar (Hindi), in connection with fixation of Record Date as Friday, October 01, 2021, for determining eligible shareholders of the Company, who will be entitled for the sub-division (Split) of each Fully Paid-up Equity Share of the Company of Face Value of Rs.10/- each to 2 (Two) fully paid-up Equity Shares of Face Value of Rs.5/- each of the Company.

We request you to take the same on record.

Thanking You
For CL Educate Limited



Rachna Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI Membership No.: A17780



Place: New Delhi
Date: September 11, 2021

● LOW EARTH ORBIT

Hughes, OneWeb ink pact for satellite services in US, India

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 10

HUGHES NETWORK SYSTEMS and OneWeb have announced agreements for Low Earth Orbit satellite service in the US and India.

Hughes Network Systems, which focuses on satellite and multi-transport technologies and networks, and OneWeb, the Low Earth Orbit (LEO) satellite communications company backed by Bharti, said that they have signed a distribution agreement in the US, for enterprise services.

"In India, the parties have entered into a MOU (Memorandum of Understanding) for a strategic agreement to distribute services to large enterprises, small and medium businesses, government, telcos



Bharti Enterprises chairman Sunil Mittal

Hughes and Bharti-backed OneWeb would work together to broaden distribution globally, with Hughes offering OneWeb's low-latency, high-speed connectivity

and ISPs (Internet Service Providers) in the rural and remote parts of the country," OneWeb said in a statement.

Services will be offered by Hughes Network Systems, LLC, and Hughes Communications India, respectively.

Hughes and OneWeb would work together to broaden distribution globally, with Hughes offering OneWeb's low-

latency, high-speed connectivity for markets such as enterprise, government, commercial aviation and maritime, cellular backhaul, and community Wi-Fi hotspots, according to the statement.

Hughes, through its parent company EchoStar, is an investor in OneWeb, a company that is building its initial constellation of 648 LEO satellites.

The services will begin this year to the Arctic region including Alaska, Canada, and the UK.

OneWeb had recently said it is on track to offer services in India from May 2022, and that its offering will benefit not just Airtel but the other telecom operators as well, by pushing broadband into underserved and remote areas of the country.

By late 2022, OneWeb will be offering its high-speed, low latency connectivity services, globally.

"Service testing on the satellites already in orbit is underway, using gateways that Hughes is building for the network. Results are positive, including seamless satellite and beam handovers, high speeds and low latency," the statement said.

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 10

HOMEGROWN FMCG MAJOR Emami has said it intends to maintain decent margins in FY22 on the back of stringent cost control and volume led growth.

Currently, FMCG companies are facing inflationary pressure on the raw material inputs and some of them have even increased the prices to maintain margins.

The Kolkata-based company would try to absorb input costs through higher opera-

FMCG companies are currently facing inflationary pressure on raw material inputs and some of them have even increased their prices to maintain margins

tional efficiency and judicious price increases, said the latest annual report of the company. "Going forward, the company intends to maintain decent margins on the back of

stringent cost control and volume-led growth. Increase in raw material costs could be absorbed through higher operational efficiency and judicious price increases," said Emami over the outlook for FY22.

In FY21, Emami's performance was impacted due to the pandemic-induced lockdown.

"However, margins increased with 8 per cent sales growth due to stringent cost control and benign raw material prices," it added.

According to Emami, it enjoys one of the highest margins in India's FMCG compa-

nies, generating an attractive corpus for reinvestment.

"The company is debt-free despite having invested more than ₹2,600 crore in acquisitions over 12 years," it added.

In FY21, Emami, which owns some power brands such as Navratna, Boro Plus, Kesh King, Men's Fairness Cream, had a revenue of ₹2,881 crore, up 8.51% from a year-ago period. While its Ebitda for the financial year ended on March 31, 2021, was up 27.79% to ₹883 crore. Its Ebitda margin was at 30.7% in FY21 against 26% of FY20.

Isro: Orbiter payloads of Chandrayaan-2 discovery-class findings

PRESS TRUST OF INDIA
Bengaluru, September 10

THE OBSERVATIONS OF the Chandrayaan-2 orbiter payloads have yielded discovery-class findings, according to the Indian Space Research Organisation (ISRO).

There were eight scientific payloads hosted on the orbiter.

Earlier this week, Isro opened up its scientific discussions on Lunar Science to "the people of the country, to engage the Indian academia, institutes, students, and people from all disciplines and walks of life", in the form of a two-day Lunar Science Workshop & Release of Chandrayaan-2 Data.

The virtual workshop commemorated the completion of two years of the Chandrayaan-2 orbiter in the lunar orbit.

Isro chairman and secretary in the department of space K Sivan inaugurated the workshop and released the documents on Chandrayaan-2 science results and data products. "The lunar workshop delivered the big news of bunch of discovery-class of findings by Chandrayaan-2," the agency said.

India, US agree to collaborate on emerging fuels under SCEP

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 10

INDIA AND THE US have agreed to expand their energy partnership by adding emerging fuels to the list of areas of cooperation that previously included power and energy efficiency, oil and gas, renewable energy and sustainable growth, an official statement said.

This followed a ministerial meeting of the US-India Strategic Clean Energy Partnership (SCEP) on Thursday evening.

"Minister of petroleum and natural gas Hardeep Singh Puri co-chaired a virtual ministerial meeting with US secretary of energy Jennifer Granholm to launch the revamped US-India Strategic Clean Energy Partnership," a statement from the oil ministry said.

The SCEP was launched in accordance with the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership announced by Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden at the Leaders' Summit on Climate held in April.

"The two sides announced the addition of a fifth Pillar on Emerging Fuels, which signals joint resolve to promote clean energy fuels," it said. It said "a

"The two sides announced the addition of a fifth Pillar on Emerging Fuels [to the SCEP], which signals joint resolve to promote clean energy fuels," the oil ministry said

new India-US Task Force on Bio-fuels was also announced to build on the scope of work on cooperation in biofuels sector".

With this, the SCEP inter-governmental engagement now spreads across five pillars of cooperation — Power and Energy Efficiency, Responsible Oil and Gas, Renewable Energy, Sustainable Growth and Emerging Fuels.

The statement said Puri and Granholm reviewed the progress, major accomplishments, and prioritised new areas for cooperation under the various pillars. "The meeting also reviewed the progress on the India-US Civil Nuclear Energy cooperation," it said without providing any details.

"Minister Puri emphasised that the revamped clean energy partnership will intensify the efforts from both sides to take advantage of the complemen-

tarities that exist between the US and India — advanced US technologies and rapidly growing India's energy market, for a win-win situation through a cleaner energy route with low carbon pathways," it said.

After the revamp, there would be considerable emphasis on upscaling cooperation under the renewable energy pillar by working on several projects and system-friendly practices in India's renewable energy sector.

"The US secretary lauded India's renewable energy target of 450 GW by 2030, and offered to closely collaborate in realization of this target by India," the statement said.

"Both sides will strengthen the electric grid in India to support large-scale integration of renewables, including through smart grids, energy storage, flexible resources, and distributed energy resources, and ensure reliable and resilient grid operations, as well as promoting energy efficiency and conservation measures," it added.

● INTERVIEW: SURINDER K GUPTA, chairman & MD, MSTC

'Agri commodities have taken the No. 1 spot in respect of transaction volume'

From a trading company MSTC, under the ministry of steel, has transformed itself into an e-commerce company over the years. The Centre expects it to play a major role in the government's drive to monetise assets. While the company has already created a deep footprint in e-auctioning agri commodities, it is moving ahead to recycle end of life vehicles in an ecofriendly manner. Chairman and managing director, MSTC, **Surinder Kumar Gupta** speaks to **Indronil Roychowdhury** about the company's current focus and its days ahead. Edited excerpts:



Surinder Kumar Gupta, chairman and managing director, MSTC

MSTC has a number of modules for e-auction. What are your current auctioning portfolios?

MSTC's e-commerce platform has various bidding modules like Price Bid, Price-cum-Quantity bid, e-Tender, Multiple Stage Bidding, SMRA Auction, Swiss Challenge, Multi Currency Bidding, e-Reverse Auction, bidding platform for Export & Import and others.

We conduct auctions for majority of the PSUs, electricity companies, central & state government departments & many reputed private companies. Our diversification in modules for e-auction and e-procurement has come through 19 years of experience in e-commerce.

Auctioning of which commodity gives you the highest business at present? Agricultural commodities have taken the number one place in respect of transac-

tion volume in the last financial year. In case of auctions conducted for long-term lease, for example spectrum auction, coal mines auction, mineral block auction, commercial space and others, we do not consider the total value for the entire lease period for our business transaction volume. Rather, we take value equivalent to one year's transaction value for reporting purpose, otherwise the same will be astronomically high.

What sort of support does MSTC provide to the farmers from its auction platform? What are the agri commodities that MSTC is auctioning? How much worth of agri commodities was auctioned last fiscal and in the first quarter of the current fiscal?

We have developed e-RaKAM (e-Rashtriya Kisan Agri-Mandi) portal to bring together the farmers, civil supplies and buyers on a single platform to ease the selling and buying process of agri and horticulture produces. This portal can connect the farmers from small

village to the biggest market. We have already developed a portal Jaivik Kheti on behalf of the ministry of agriculture & farmers welfare for organic farming and giving wider market access to the organic farmers. India Post has been integrated as logistics partner. The onboarding of few more logistics partner is under process.

Bidding portal for Cotton Corporation of India has been developed for auctioning of cotton & cotton seeds.

MSTC has been roped in to sell assets of sick PSUs. How much worth of asset selling is in MSTC's radar? We have developed a bidding portal through which various CPSEs are doing their internal due diligence. We hope to start getting properties in current quarter itself. The government's push on monetisation of assets is bound to gain traction.

standards and do not pay GST. Such players even recycle engines.

MSTC had made transactions worth ₹1.25 lakh crore last fiscal? How do you foresee the current fiscal?

This fiscal our target for transaction is ₹1.5 lakh crore but the first quarter performance is quite encouraging. The first quarter transaction this fiscal is worth around ₹37,000 crore against ₹5,730 crore achieved in the first quarter last fiscal.

Will the new scrappage policy help the JV, Mahindra-MSTC Recycling Pvt Ltd? Please throw some light on the expansion trajectory of the JV? With the ministry of road transport and highways implementing the scrappage policy, there is likely to be improvement in the mode of selling of end of life vehicles (ELVs). There will be incentives for selling ELVs to authorized recyclers and disincentives for carrying and running very old vehicles. ELVs offered to authorised recyclers are very less as local scrap dealers pay more. They hardly follow environmental

Govt allows disinvested public sector companies to set off previous losses

FE BUREAU
New Delhi, September 10

AHEAD OF THE strategic disinvestment of Air India and fuel retailer-cum-refiner BPCL, the government on Friday said losses incurred by disinvested public sector undertakings (PSUs) in previous years can be carried forward and set off.

"In order to facilitate the strategic disinvestment, it has been decided that Section 79 of

"...loss incurred in previous year prior to, and including, the previous year of strategic disinvestment shall be carried forward and set off by the erstwhile public sector company," CBDT said

the Income-tax Act, 1961, shall not apply to an erstwhile pub-

lic sector company which has become so as a result of strategic disinvestment," the Central Board of Direct Taxes (CBDT) said. "Accordingly, loss incurred in any previous year prior to, and including, the previous year of strategic disinvestment shall be carried forward and set off by the erstwhile public sector company."

"The above relaxation will cease to apply from the previous year in which the company,

that was the ultimate holding company of such erstwhile public sector company immediately after completion of the strategic disinvestment, ceases to hold, directly or through its subsidiary or subsidiaries, 51% of the voting power of the erstwhile public sector company" it said.

Necessary legislative amendments for the above decision shall be proposed in due course of time, CBDT said.

JK LAKSHMI CEMENT LTD.
(CIN: L74999RJ1938PLC019511)
Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan - 307019
Secretarial Office: 3rd Floor, Gulab Bhawan (Rear Wing), 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone: +91-011-68201862
Email: jklc.investors@jklmail.com, Website: www.jklakshmicement.com

NOTICE OF LOSS/ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following equity share certificates in respect of 308 equity shares of the Company, since transferred to Investors Education and Protection Fund, were reported lost or misplaced by the holders/claimants thereof:

Sr. No.	Name & Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos.		No. of Shares
			From	To	
1.	Shailesh K Babubhai Modi (Folio No. D056461)	SD57280	3793653	3793786	134
2.	Devinder Kumar Batra (Folio No. SD006047)	SD5972	1072249	1072370	122
3.	Francis Jaikumar (Folio No. SD011400)	SD11282	1732857	1732908	52

On the basis of requests received from them, the Company has issued Duplicate Share Certificates in lieu thereof.

For JK Lakshmi Cement Limited
Sd/-
B.K. Daga
Date: 10th September 2021
Place: New Delhi Sr. Vice President & Company Secretary

Mesco Pharmaceuticals Limited
CIN: L24111UR1986PLC015895
Registered Office: Upper Kesalton, Talitai, Nainital-263 001, Uttarakhand
Ph. No: +91-9871862796; Website: www.mescopharma.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company scheduled to be held on **Wednesday, 29th September, 2021 at 09:00 A.M. at Upper Kesalton, Talitai, Nainital-263 001, Uttarakhand**, to transact the Business as set out in the notice of the 35th AGM.

In terms of MCA Circular and SEBI Circular, the Notice alongwith the Annual Report for the year ended 31.03.2021 has been sent by Email to those members whose email id are registered with the Company/ Depository Participants. It is further requested to the all the shareholders who have not registered their email id, kindly register the same by requesting at info@skylinera.com or admin@skylinera.com. The requirement of sending Physical copy NOTICE and Annual Report to the members have been dispensed with pursuant to MCA Circulars and SEBI Circulars.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Register of Members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM.

A facility for voting by polling paper shall be made available at the venue of the 35th AGM to members to exercise their right to vote at the meeting.

By order of the Board of Directors
For Mesco Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Dhruv Singh
Director & CEO
DIN: 02983286

Place: New Delhi
Date: 06.09.2021

HRIDAY CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, UDAIPUR
MCS/ICR/352/2010

NOTICE: ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 14th Annual General Meeting of the Hriday Credit Co-operative Society Limited will be held on **Saturday, 25th September, 2021 at 03:00 P.M.** at Hamer Kothi, Badi Hawala Road, Bari, Udaipur Rajasthan to transact the following business concerning the society:

AGENDA

- To grant leave of absence to those members of the society who have not attended the General Meeting.
- To Read and confirm the Minutes of Last Annual General Meeting.
- To Approve Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended 31st March 2021.
- To Appropriate Net Profit for the year ended 31st March 2021.
- To Approve proposed Annual Budget for Income & Expenditure for F.Y. 2021-2022.
- To Appoint Statutory Auditor and fix its remuneration for the F.Y. 2021-2022.
- List of employees who are relatives of members of the board or of the Chief Executive.
- Disposal of any other business with the permission of Chairman.

Place: Udaipur
Date: 09th September, 2021

For: Hriday Credit Co-operative Society Ltd.
By order of the Board of Directors
Rajesh Jain (Secretary)

Note for Member's Attention:

- If there is no quorum for the meeting at the appointed time, in terms of Bye-Laws no. 31, the meeting shall stand adjourned to 04:00 PM on the same day and the Agenda of the Meeting shall be transacted at the same venue irrespective of the Rules of Quorum.
- Anyone who desires to move any resolution may please send the same in duplicate on or before 20th September, 2021 by 04:00 PM at the Head Office of the society.
- Any Query pertaining to accounts may please be sent to the office of the society at least four working days before the date of Annual General Meeting.
- The Annual General Meeting will be conducted taking into account the COVID-19 measures. The Members can also join the Meeting virtually by visiting the link published at the Website www.hriday.co

Member's Identity Card and wearing Mask is must for the attendance in Annual General Meeting.

एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No.: L63090WB1919GOI003229
Registered Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata-700 001, Ph.: 033 2242-8210 / 8550; Fax No.: 033 2242-9770
E-mail: com.sec@andrewyule.com; Website: www.andrewyule.com

CHANGE OF DATE OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that due to unavoidable reasons, the ensuing 73rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Andrew Yule & Company Limited scheduled to be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") for which notice has been sent to the members of the Company together with Annual Report for FY 2020-21 on 6th September, 2021 through electronic mode, will now be held on Thursday, 30th September, 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

Members of the Company are hereby informed to attend the ensuing 73rd AGM of the Company at the revised date i.e. Thursday, 30th September, 2021 at 3.30 p.m.

Accordingly, the members are also requested to take note of the following revised dates in connection with the 73rd AGM:

- The Register of the Members and the Share Transfer Registers of the Company will now remain closed from 24th September, 2021 (Friday) to 30th September, 2021 (Thursday), both days inclusive.
- The remote e-voting period shall commence on Monday, 27th September, 2021 (9.00 a.m.) and end on Wednesday, 29th September, 2021 (5.00 p.m.).
- The cut-off date for the remote e-voting will be 23rd September, 2021.

The other dates and proceedings shall remain unchanged.

In terms of the above, kindly note that the revised Notice of the 73rd AGM of the Company has already been sent electronically to the members [whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s)] on 8th September, 2021.

The revised copy of the Annual Report for FY 2020-21 will be uploaded on the Company website at www.andrewyule.com and the weblink for the same will also be shared with the members through email in due course.

For and on behalf of
Andrew Yule & Company Limited
Sd/-
Sucharita Das
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 11th September, 2021

AANCHAL ISPAT LIMITED
CIN: L27106WB1996PLC078866
Registered Office: Mouza - Chamrail, NH 6, Howrah, West Bengal - 711114
Email: info@aanchalispac.com, Tel: 03212-246121, Website: www.aanchalispac.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 (Rs in Lakhs except EPS)

PARTICULARS	3 months ended 30.06.2021	3 months ended 31.03.2020	3 months ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	3,399.89	4,188.61	1,112.38	12,430.92
Net Profit/(Loss) for the period (Before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	(167.83)	(205.15)	(51.03)	(636.95)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(167.83)	(205.15)	(51.03)	(636.95)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(167.83)	(106.82)	(51.03)	(538.62)
Total Comprehensive Income for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	(167.83)	(104.35)	(51.03)	(536.15)
Equity Share Capital	2,085.38	2,085.38	2,085.38	2,085.38
Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet of previous year)	-	-	-	-
Earning Per Share (Rs.10/- each)				
Basic: (in Rs)	(0.80)	(0.50)	(0.24)	(2.57)
Diluted: (in Rs)	(0.80)	(0.50)	(0.24)	(2.57)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 30th June, 2021 Unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the BSE website: www.bseindia.com and on the Company website http://www.aanchalispac.com/financials.htm#financials
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 09th September, 2021.

For Aanchal Ispat Limited
Sd/-
Mukesh Goel
(Managing Director)
(DIN: 00555061)

Place: Kolkata
Date: 10.09.2021